

## प्रेस नोट

### थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत।

पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत द्वारा जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफल बनाने एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिये शहर व देहात क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में आज दिनांक 24.04.2021 को थाना सुनगढी पुलिस टीम छतरी चौराहा शहर पीलीभीत में चैकिंग अभियान चला रही थी। तभी दो व्यक्ति स्कूटी नं०-UP 23 Y 2235 यामाह फैशिनो रंग लाल पर बैठकर बीच में 04 शराब की पेटियों के साथ अचानक आ गये पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, मौके से दीपक कुमार नागर पुत्र सोमपाल सिंह नागर निवासी ग्राम तिगरिया भूड कस्वा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय 04 अदद शराब देशी पेटि व स्कूटी के साथ पकड लिया पीछे वैठा व्यक्ति सोनू सैल्समैन मौके से भाग गया। गिरफ्तार दीपक नागर उपरोक्त को उक्त शराब की पेटिया जिसमें 175 शराब के पव्वे झूम मार्का के भरे थे शराब ठेका नं०-11319 शराब ठेका अनुज्ञापि लाइसेन्स धारक घीसू खाँ के ठेके से थोक में ले जाकर लाँकडाउन वन्दी में देहात में गांव में वेचने के लिये ले जा रहे थे और मास्क नहीं पहने थे। इसी आधार पर अभियुक्त दीपक नागर उपरोक्त को विना लाइसेन्स व परमिट के 04 अदद शराब पेटि कुल 175 पव्वा कीमती लगभग 9000 रुपये के गिरफ्तार करके थाना सुनगढी पर मु०अ०सं० 127/2021 धारा 188/269/270 भादवि व ¾ महामारी एक्ट 1897 व धारा 51 आपदा प्रवन्धन अधि० व धारा 60(1)क,64 आवकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया स्कूटी उपरोक्त को धारा-72 आवकारी अधिनियम के अन्तर्गत जव्तीकरण की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत को दी जावेगी। अभियुक्त को मा० न्यायालय समय से रवाना किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण

(1). दीपक कुमार नागर पुत्र सोमपाल सिंह नागर निवासी ग्राम तिगरिया भूड कस्वा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा

#### फरार अभियुक्त

(1). सोनू सैल्समैन देशी शराब की दुकान लाइसेन्स नं०-11319 स्टेशन रोड निकट छतरी चौराहा पीलीभीत

(2). लाइसेन्स धारक घीसू खाँ दुकान लाइसेन्स नं०-11319 स्टेशन रोड निकट छतरी चौराहा पीलीभीत बरामदगी

(1). देशी ठेका मसालेदार शराब झूम मार्का 175 अदद पव्वा कुल 04 अदद पेटि कीमती 9000 हजार रुपये

(2). एक स्कूटी UP 23 Y 2235 यामाह फैशिनो रंग लाल कीमती 55 हजार रुपये।

#### पुलिस पार्टी

(1). उ०नि० श्री प्रमोद कुमार नेहवाल चौकी प्रभारी कस्वा थाना सुनगढी पीलीभीत।

(2). उ०नि० श्री अमरीश वावू, थाना सुनगढी पीलीभीत।

(3). का० 1233 पुरषोत्तम मिश्रा थाना सुनगढी पीलीभीत।

(4). का० 631 उपेन्द्र कुमार थाना सुनगढी पीलीभीत।